

प्रेस-नोट

- सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा अक्टूबर-2020 हेतु आवेदन के लिए दिया गया एक और अवसर

भिवानी, 29 सितम्बर, 2020 : सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक) एवं हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा अक्टूबर-2020 के लिए परीक्षार्थियों के हितों के मद्देनजर ऑनलाईन आवेदन हेतु 05 अक्टूबर, 2020 तक एक और अवसर दिया गया है जिसका लिंक बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर आज 29 सितम्बर, 2020 से उपलब्ध है।

इस आशय की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह एवं सचिव श्री राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने आज यहाँ बताया कि जो परीक्षार्थी सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) एवं हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा अक्टूबर-2020 के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 13 सितम्बर, 2020 तक कम्पार्टमेंट, रि-अपीयर, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे तथा ऐसे परीक्षार्थी जिन द्वारा आवेदन तो किया था किन्तु ऑनलाईन शुल्क जमा नहीं करवा पाए थे, वे परीक्षार्थी भी 05 अक्टूबर, 2020 तक कम्पार्टमेंट, रि-अपीयर आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय हेतु बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिये गये लिंक में 1000/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों द्वारा अपना आवेदन व शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना है। आवेदन फार्म व शुल्क जमा करवाने उपरान्त केवल अतिरिक्त विषय के परीक्षार्थी ही अपना आवेदन फार्म एवं अन्य दस्तावेज कि हार्ड कॉपी सहायक सचिव(सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक) एवं मुक्त विद्यालय) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम समय रहते भेजना सुनिश्चित करें तथा शेष परीक्षार्थी आवेदन की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी के समकक्ष मान्यता प्राप्त करने हेतु दो वर्षीय आई0टी0आई0 डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर दी गई ई-मेल/हेल्पलाईन नं0 01664-254300, 254308 एवं 254309 पर सम्पर्क करते हुए समाधान अवश्य करवाएं।